

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन के निवासियों को अक्टूबर 2022 के म्युनिसिपल चुनाव में काम करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (16 जून, 2022) – 17 जून से शुरू करते हुए, पब्लिक, म्युनिसिपल चुनाव (Municipal Election) कर्मचारी बनने के लिए आवेदन कर सकती है और वोटिंग डे (Voting Day), 24 अक्टूबर को एडमिनिस्ट्रेटिव और ग्राहक सेवा संबंधी कार्यों में सहायता कर सकती है। 2,000 से अधिक पोजीशन्स उपलब्ध हैं। ब्रैम्पटन के 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

यह, नए कौशल प्राप्त करने, सिटी के स्टाफ को जानने और आपकी कम्युनिटी से जुड़ने का शानदार अवसर है। कई पोजीशन्स उपलब्ध हैं और नौकरी के विस्तृत वर्णन 17 जून को, www.brampton.ca/bramptonvotes पर उपलब्ध होंगे।

संक्षेप तथ्य

- जो इच्छुक हैं, वे 17 जून से शुरू करते हुए, www.brampton.ca/bramptonvotes पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- हार्ड कॉपी आवेदनपत्र, 17 जून से शुरू करते हुए, सिटी हॉल, 2 वेलिंग्टन स्ट्रीट वेस्ट (City Hall, 2 Wellington Street West) में सिटी क्लर्क के कार्यालय में उपलब्ध होंगे।
- सिटी क्लर्क का कार्यालय, कार्यदिवसों को सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है।
- जिन व्यक्तियों की नियुक्ति होगी, उन्हें सितम्बर 2022 में सूचित किया जाएगा। उनके लिए यह प्रतिबद्धता देना जरूरी होगा कि वे 24 अक्टूबर से पहले दो से तीन घंटे की ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें शामिल होगा, इन-क्लास और मेटिरियल समीक्षा और 24 अक्टूबर को 14 घंटे तक काम करना पड़ेगा।
- एडवांस वोटिंग के लिए पोजीशन्स भी उपलब्ध हैं। एडवांस वोटिंग, 7, 8, 9, 14 और 15 अक्टूबर को होगी।
- ट्रेनिंग और मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- पहले का अनुभव और कंप्यूटर कौशलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

हवाला

“350,000 से अधिक के योग्य वोटर बेस के साथ, चुनाव कर्मचारियों की सहायता, प्रभावी रूप से म्युनिसिपल चुनाव लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। सेवा करने की भावना वाले किसी भी व्यक्ति का आवेदन करने के लिए स्वागत है। चाहे आप विद्यार्थी हैं, जो म्युनिसिपल

सरकार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लोकल अनुभव प्राप्त करने के इच्छुक ब्रैम्पटन में न्यूकमर हैं या अपनी कम्युनिटी को वापिस देने के इच्छुक निवासी हैं, तो यह आपके लिए एक अवसर है!”

- पीटर फे (Peter Fay), सिटी क्लर्क और रिटर्निंग अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca